



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४६]

नई दिल्ली, बंगलवार, फरवरी ८, १९७७/माघ १९, १८९८

No. 46]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1977/MAGHA 19, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 8th February, 1977

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 275-Customs, dated 2nd August, 1976, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts component parts of compressors of over 75 HP, being compressors falling under Heading No. 8411 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for use in refrigerating and air-conditioning equipment, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 40 per cent *ad-valorem*.

[No. 23/F. No. 370/151/76-Cus.-I]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचनाएँ

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1977

सां. कां. निं. 67(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं. 275-सी. शु. तारीख 2 अगस्त, 1976 को अधिकांत करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) को प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं. 84.11 के अन्तर्गत सम्मिलित 7.5 अश्व शक्ति से अधिक के संपांडको के संघटक पुर्जों को जब उनका आयात प्रशोधन और वातानुकूलन उपकरणों में उपयोग के लिए भारत में किया जाए उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्योगीय सीमा शुल्क के उतने भाग के संदाय से छूट देती है जो मूल्य के 40 प्रतिशत में अधिक है।

[सं. 23/फा. सं. 370/151/76 सी. शु.-I]

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 369-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely:—

In the Schedule below the said notification, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"5. No 23-Customs, dated 8th February, 1977"

[No. 24/F. No. 370/151/76-Cus.-I]

सां. कां. निं. 68(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 369 सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 5 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. सं. 23-सीमाशुल्क, तारीख 8 फरवरी, 1977।"

[सं. 24/फा. सं. 370/151/76-सी. शु.-I]

G.S.R. 69(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts palmoleine falling within chapter 15 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from—

- (a) the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule; and
 - (b) the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 32 of the said Finance Act
2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st March, 1977.

[No. 25/F No 355/38/77-Cus -I]

G S. SAWHNEY, Addl. Secy.

सां. कां. निं. 69 (अ).—वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, इस अधिसूचना द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 15 के अर्न्तगत सम्मिलित पामोलीन, तब जब भारत में उसका आयात किया जाए—

- (क) उनपर उद्ग्रहणीय उस समस्त सीमा शुल्क से जो उन प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और
 - (ख) उक्त वित्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से, छुट देती है।
2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1977 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 25/कां. सं. 355/38/77-सी. शुं.-I]

गुं. सिं. साहूनी, अपर सचिव,।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

